

01

प्रेस नोट दिनांक 06-10-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 06.10.2020 को उपनिरीक्षक श्री अमरेश यादव व उपनिरीक्षक श्री शशांक कुमार सिंह मय हमराह के द्वारा शांति भंग व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए 03 अभियुक्तों को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

नाम पता अभियुक्तगण

- 01-** मनोज कुमार पुत्र पंचम यादव_निवासी ग्राम जिगिना खुर्द थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02-** समीउल्लाह पुत्र नसीबदार निवासी मोहल्ला अशोक नगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03-** नबीरहम पुत्र नसीबदार निवासी मोहल्ला अशोक नगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

02

प्रेस नोट दिनांक 06-10-2020

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 06-10-2020 को श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन्स में परेड की सलामी ली गई। तत्पश्चात परेड मार्च-अप किया गया, तदोपरान्त पूरी परेड की दौड़ कराई गई। महोदय के नेतृत्व में समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा पुलिस लाइन्स में सुरक्षा सम्बन्धी उपाय के दृष्टिगत दंगा नियंत्रण का रिहर्सल किया गया। जिसमें बल्वा ड्रिल, एन्टी राइट गन, चिली हैण्ड ग्रेनेड एवं टियर गैस का डेमोंस्ट्रेशन कराया गया।

03

प्रेस नोट दिनांक 06-10-2020

श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर एवं श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा डुमरियागंज तहसील पर पहुँचकर सम्पूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं का निस्तारण हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया।

आज दिनांक-06-10-2020 को श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर एवं श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में डुमरियागंज तहसील पर सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जहां पर महोदय द्वारा फरियादियों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को मौके पर सुने तथा वहां मौजूद/संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।

महोदय ने कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी स्तर पर हीलाहवाली क्षम्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त तहसील इटवा में भी तहसील समाधान दिवस का आयोजन हुआ जिसमें उप-जिलाधिकारी इटवा एवं क्षेत्राधिकारी इटवा मौजूद रहें।

प्रेस नोट दिनांक 06-10-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06.10.2020 को श्री दिनेशचन्द्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में मु.अ.सं. 194/2020 धारा 304 भादवि0 थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा ।

नाम पता अभियुक्त- मगन पुत्र समझावन उर्म करीब 40 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर परसा खुर्द थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.श्री दिनेशचन्द्र चौधरी, प्रभारी निरीक्षक, थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2.उ.नि. श्री विनोद कुमार मिश्रा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3.का. शैलेश कुमार शर्मा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4.का. गणेश कुमार सिंह थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

